



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 14, 2013/आश्विन 22, 1935

No. 519]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2013/ASVINA 22, 1935

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2013

सा.का.नि. 686(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए बीस रुपये और पांच रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2013” है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. (1) “मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 125वीं जयंती” के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एकसाल में निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) बीस रुपये ;

(ii) पांच रुपये ;

(2) निर्मित किए जाने वाले उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं, डिजाइन और संघटन के अनुरूप होंगे, अर्थात् :--

सिक्के का अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	क्रकचनों की संख्या	धातु संघटन
(1)	(2)	(3)	(4)
बीस रुपये	वृत्ताकार 39 मिलीमीटर	180	चतुष्क मिश्रातु रजत- 50 प्रतिशत तांबा - 40 प्रतिशत निकल - 5 प्रतिशत जस्ता - 5 प्रतिशत

पांच रुपये	वृत्ताकार 23 मिलीमीटर	100	निकल पीतल तांबा - 75 प्रतिशत जस्ता - 20 प्रतिशत निकल - 5 प्रतिशत
------------	--------------------------	-----	---

डिजाइन

1. बीस रुपये

मुख भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” इबारत लिखी होगी, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह शीर्ष के नीचे रुपया का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “20” भी होगा।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग के मुख भाग पर मध्य में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आकृति होगी जिसके साथ ऊपरी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “मौलाना अबुल कलाम आज़ाद” लेख और निचली बाईं परिधि पर 125वीं जयंती और ऊपरी दांयी परिधि पर अंग्रेजी में “MAULANA ABUL KALAM AZAD” और निचली दांयी परिधि पर “125 BIRTH ANNIVERSARY” लिखा होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आकृति के नीचे वर्ष “1888-1958” उत्कीर्ण किया जाएगा।

2. पांच रुपये

मुख भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” इबारत लिखी होगी, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह शीर्ष के नीचे रुपया का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “5” भी होगा।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग के मुख भाग पर मध्य में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आकृति होगी जिसके साथ ऊपरी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “मौलाना अबुल कलाम आज़ाद” लेख और निचली बाईं परिधि पर 125वीं जयंती और ऊपरी दांयी परिधि पर अंग्रेजी में “MAULANA ABUL KALAM AZAD” और निचली दांयी परिधि पर “125 BIRTH ANNIVERSARY” लिखा होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आकृति के नीचे वर्ष “1888-1958” उत्कीर्ण किया जाएगा।

3. मानक वजन तथा अनुज्ञात उपचार :-- “मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 125वीं जयंती” के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और अनुज्ञात उपचार नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगा, अर्थात् :--

सारणी			
अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संघटन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
बीस रुपये	30 ग्राम	रजत के लिए 1/500 से ज्यादा या कम अर्थात् रजत अंतर्वस्तु 498 से 502 प्रति 1000 के बीच का अंतर हो सकेगा।	1/100 ज्यादा या कम अर्थात् वजन में 29.7 ग्राम से 30.3 ग्राम तक अंतर हो सकता है।
पांच रुपये	6 ग्राम	तांबा और जस्ता के लिए 1/100 तक कम या ज्यादा अर्थात् तांबा में 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक और	1/40 तक कम या ज्यादा अर्थात् वजन से 5.85 ग्राम से 6.15 ग्राम

जस्ता में 19 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक का अंतर तक का अंतर हो सकता है ।
हो सकेगा और निकल में 1/200 तक कम या ज्यादा
अर्थात् 4.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत तक के बीच का
अंतर हो सकेगा ।

[फा. सं. 04/05/2013-सिक्का]

पंकज गुप्ता, अवर सचिव (एसपीएमसी और सिक्का)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2013

G.S.R. 686(E):—In exercise of the powers conferred by clause (d) and clause (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement :-** (1) These rules may be called “The coinage of Twenty Rupees and Five Rupees Coins to Commemorate the Occasion of **125th BIRTH ANNIVERSARY OF MAULANA ABUL KALAM AZAD**”, Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) The Coins of the following denominations shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of “**125th BIRTH ANNIVERSARY OF MAULANA ABUL KALAM AZAD**”, namely:-

(i) Twenty Rupees;

(ii) Five Rupees.

(2) The coins of the above denominations shall conform to the following dimensions, designs and composition, namely:-

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Twenty Rupees	Circular 39 millimeters	180	Quaternary Alloy Silver – 50 per cent Copper – 40 per cent Nickel - 5 per cent Zinc – 5 per cent
Five Rupees	Circular 23 millimeters	100	Nickel-Brass Copper – 75 per cent Zinc – 20 per cent Nickel – 5 per cent

DESIGN**1. Twenty Rupees****OBVERSE**

The face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagri script and on the right periphery flanked with the word “INDIA” in English. It shall also bear the rupee symbol “₹” and denominational value “20” in International numerals below the Lion Capital.

REVERSE

The face of the coin shall bear the picture of **Maulana Abul Kalam Azad** in the centre, with the inscription “मौलाना अबुल कलाम आज़ाद” in Devnagri script on the left upper periphery. “125 वीं जयंती” on the left lower periphery and “MAULANA ABUL KALAM AZAD” in English on the right upper periphery. “125 BIRTH ANNIVERSARY” on the right lower periphery. The year “1888-1958” shall be inscribed below the picture of **Maulana Abul Kalam Azad**.

2. FIVE RUPEES**OBVERSE**

The face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagri script and on the right periphery flanked with the word “INDIA” in English. It shall also bear the rupee symbol “₹” and denominational value “5” in International numerals below the Lion Capital.

REVERSE

The face of the coin shall bear the picture of **Maulana Abul Kalam Azad** in the centre, with the inscription “मौलाना अबुल कलाम आज़ाद” in Devnagri script on the left upper periphery. “125 वीं जयंती” on the left lower periphery and “MAULANA ABUL KALAM AZAD” in English on the right upper periphery. “125 BIRTH ANNIVERSARY” on the right lower periphery. The year “1888-1958” shall be inscribed below the picture of **Maulana Abul Kalam Azad**.

3. Standard weight and remedy allowed: - The standard weight of the coins of the following denominations, coined to commemorate the occasion of “125th BIRTH ANNIVERSARY OF MAULANA ABUL KALAM AZAD” and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the following Table, namely: -

TABLE

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Twenty Rupees	30 grams	1/500 th plus or minus for silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 th plus or minus that is to say, the weight could vary

			from 29.7 grams to 30.3 grams.
Five Rupees	6 grams	1/100 th plus or minus for Copper and Zinc, that is to say, Copper could vary from 74 percent to 76 percent and Zinc from 19 percent to 21 percent and 1/200 th plus or minus for Nickel that is to say, Nickel could vary from 4.5 percent to 5.5 percent.	1/40 th plus or minus that is to say, the weight could vary from 5.85 grams to 6.15 grams.

[F. No.04/05/2013-Coin]

PANKAJ GUPTA, Under Secy. (SPMC & Coin)